



**AGRA POLICE**

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



**प्रेस नोट थाना सिकन्दरा जनपद आगरा**

**21.07.2022**

**थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल बरामद.....**

दिनांक 22.06.2022 को मृतक वीरपाल पुत्र श्री शंकरलाल निवासी ग्राम महल थाना सिकन्दरा जनपद आगरा उम्र करीब 48 वर्ष के दिनांक 19.06.2022 से गुमशुदा होने की सूचना मृतक की पत्नी श्रीमती गीता द्वारा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा पर अंकित कराई गई।

जांच के दौरान दिनांक 23.06.2022 को मृतक का शव मृतक के निवास स्थान से महज 30 मीटर की दूरी पर बह रहे नाले में पाई गई जोकि कम्बल में लपेट कर रस्सी से बांधकर डाली गई थी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एण्टी मॉर्टम इंजरी से मृत्यु होना पाया गया। जिसके पश्चात मृतक के पुत्र अमन द्वारा थाना सिकन्दरा आगरा पर दिनांक 25.06.2022 को लिखित तहरीर दी गई जिसमें अपने पिता वीरपाल तोमर पुत्र श्री शंकरलाल की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने की बात बताई गई। जिसके आधार पर थाना सिकन्दरा जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 436/2022 धारा 302/201 भादवि दिनांक 25.06.2022 को पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान सर्विलांस एवं गहन सुरागरसी पतारसी तथा चश्मदीद साक्षीगण के बयान के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक वीरपाल द्वारा शराब पीकर अपनी पत्नी गीता, पुत्र अमन व अन्य बच्चों के साथ आए दिन गाली-गलौज, अभद्रता व मारपीट की जाती थी जिससे सभी परिजन परेशान थे। दिनांक 19.06.2022 को रात्रि करीब 10:00 बजे मृतक वीरपाल तोमर की अपने पुत्र अमन से मारपीट हुई। इसी दौरान अमन ने अपने पिता वीरपाल तोमर पर चाकू से कई वार किए जिससे वीरपाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात शव को अमन तथा गीता द्वारा शव को घर में मौजूद कम्बल में लपेटकर रस्सी से बांधकर घर के बगल में बह रहे नाले के पत्थर को हटाकर शव को नाले में डाल दिया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से हत्या के 03 दिन बाद मृतक की गुमशुदगी थाना सिकन्दरा पर दर्ज करा दी तथा घटना के उपरान्त घटना स्थल से कमरा बदल कर बंसी विहार दहतोरा में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे।

घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा दिनांक 21.07.2022 को अभियुक्तगण अमन व गीता उपरोक्त को बंसी विहार दहतोरा से गिरफ्तार किया गया।

## **अपराध का तरीका**

दिनांक 19.06.2022 की रात्रि करीब 10:00 बजे मृतक व अभियुक्त के बीच मारपीट हुई जिसमें अभियुक्त अमन द्वारा मृतक वीरपाल पर चाकू से वार कर हत्या करने के उपरान्त शव को अभियुक्तगण द्वारा घर के कम्बल में लपेट कर रस्सी से बांध कर घर के पास बह रहे नाले का पत्थर हटाकर नाले में फेंक दिया गया तथा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से हत्या के 03 दिन बाद दिनांक 22.06.2022 को मृतक की पत्नी गीता द्वारा थाना सिकन्दरा पर मृतक वीरपाल पुत्र शंकर लाल की गुमशुदगी दर्ज कराई।

## **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

- 1) अमन पुत्र वीरपाल तोमर निवासी प्यालीपुर फरुखाबाद हाल निवासी ग्राम महल गलीचा फैक्ट्री थाना सिकन्दरा जनपद आगरा उम्र करीब 21 वर्ष (मृतक का पुत्र)
- 2) गीता पत्नी वीरपाल तोमर निवासी प्यालीपुर फरुखाबाद हाल निवासी ग्राम महल गलीचा फैक्ट्री थाना सिकन्दरा जनपद आगरा उम्र करीब 44 वर्ष (मृतक की पत्नी)

## **बरामदगी का विवरण**

- 1) आलाकत्ल 01 अदद चाकू

## **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम**

1. प्र०नि० श्री आनन्द कुमार शाही थाना सिकन्दरा जनपद आगरा
2. उ०नि० श्री अरुण भाटी, उ०नि० श्री आशीष त्यागी, उ०नि० श्री विवेक बालियान, उ०नि० श्री नीरज कुमार थाना सिकन्दरा जनपद आगरा
3. म०उ०नि० रेनू शर्मा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा ।
4. है०का० रविन्द्र सिंह, है०का० राकेश कुमार, का० भूरा सिंह, म०का० कोमल, म०का० सोनम थाना सिकन्दरा जनपद आगरा

